



Directorate of Public Instruction


(Government of Madhya Pradesh)

UDISE Login

User Manual

निजी स्कूल प्रस्तावित फीस हेतु यूजर मैनुअल


- DPI Portal पोर्टल ओपन करने के लिए सर्वप्रथम आप वेबसाइट URL - <https://dpimp.in/> वेब ब्राउज़र में डालकर सर्च करें।




- सर्च करने के पश्चात आपके समक्ष DPI Portal पोर्टल की वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए आप प्रविष्टि हेतु लॉग इन बटन पर क्लिक करें।




- प्रविष्टि हेतु लॉग इन बटन पर क्लिक करने के पश्चात् School Log In आप्शन पर क्लिक करें।




- यदि आपके School द्वारा प्रथम बार Log In किया जा रहा है तो, School का UDISE CODE और विभाग द्वारा प्रदाय PASSWORD दर्ज कर कर लॉग इन बटन पर क्लिक करें।




- Log In बटन पर क्लिक करने के पश्चात् अपने School लॉग इन का पासवर्ड चेंज करने हेतु पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें आप अपना अधिकारिक मेल आईडी दर्ज कर मेल के माध्यम से OTP प्राप्त करेंगे।




- मेल के माध्यम से OTP प्राप्त दर्ज करने के उपरांत पासवर्ड को परिवर्तित करने हेतु नया पासवर्ड दर्ज कर लॉग इन बटन पर क्लिक करें।




- पासवर्ड दर्ज करने के उपरान्त सफलतापूर्वक पासवर्ड परिवर्तित होने मेसेज प्रदर्शित होगा तथा साथ ही आपके द्वारा बनाये गए पासवर्ड की समय सीमा तय करने हेतु भी पेज प्रदर्शित होगा |




- दर्ज पासवर्ड की समय सीमा तय करने हेतु दिनांक का चयन कर Submit बटन पर क्लिक करें |



- पुनः परिवर्तित किये गए पासवर्ड दर्ज कर सफलतापूर्वक School लॉग इन करें तथा फीस Module का चयन करें |



- School Log In के पश्चात् शैक्षणिक सत्र अनुसार प्रस्तावित फीस दर्ज करने हेतु School Menu के Proposed Fees Option पर Click करें |



- Proposed School Fees पर विलक करने के उपरांत स्कूल से सम्बंधित सामान्य जानकारी प्रदर्शित होगी | सामान्य जानकारी में परिवर्तन करने हेतु (सामान्य जानकारी में परिवर्तन केवल एक ही बार संभव है, कृपया सावधानीपूर्वक जानकारी दर्ज करें | [click here](#)) आप्शन पर विलक करें |

DPI Portal Welcome : PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680)

Dashboard

- School Fees
- Report

सामान्य जानकारी में परिवर्तन केवल एक ही बार संभव है, कृपया सावधानीपूर्वक जानकारी दर्ज करें | [click here](#)

Welcome : PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680) - UDISECode- (23320113107)

स्कूल की सामान्य जानकारी

वैश्विक सत्र: 2020-21 | बोर्ड का प्रकार: CBSE | प्राचार्य का नाम: []

स्कूल का नाम: PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680) | प्राचार्य का ई-मेल: anandmishra140@gmail.com | प्राचार्य का मोबाइल नंबर: []

स्कूल का पता

स्कूल का पता: NA | संभाग: Bhopal | जिला: Bhopal

विकासखंड / ब्लॉक: BERASIA | गाँव का नाम: KALARA | संकुल केंद्र: []

स्कूल आधिकारिक ई-मेल आईडी: []

- सामान्य जानकारी में परिवर्तन कर चेक बॉक्स टिक कर दी गयी जानकारी को स्व-सत्यापित कर Update Information बटन पर विलक करें |

DPI Portal Welcome : PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680)

Dashboard

- School Fees
- Report

Application/UDISE No.-23320113107

स्कूल की सामान्य जानकारी

वैश्विक सत्र: 2023-24 | बोर्ड का प्रकार: CBSE | प्राचार्य का नाम: XYZ

स्कूल का नाम: PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680) | प्राचार्य का ई-मेल: xyz@gmail.com | प्राचार्य का मोबाइल नंबर: 8319129439

स्कूल का पता

स्कूल का पता: NA | संभाग: Bhopal | जिला: Bhopal

विकासखंड / ब्लॉक: BERASIA | गाँव का नाम: KALARA | संकुल केंद्र: BERASIA (BOYS) GOV.L.HISS | स्कूल आधिकारिक ई-मेल आईडी: xyz@gmail.com

स्कूल के वर्गीकरण की जानकारी

स्कूल प्रबंधन: Private Unaided | स्कूल की वेबसाइट: NA | स्कूल का प्रकार चुनें: Co-Education | स्कूल स्थिति: All Selected (2)

शहरी/ग्रामीण क्षेत्र: Urban | स्कूल का सैंडटाइन नंबर: 07554059243 | शिक्षण का माध्यम: English, Hindi | श्रेणी: Elementry

स्कूल का वर्गीकरण: Upper Primary only with grades | शिक्षण का विवरण: Vocational | प्राथमिक शिक्षण का नाम: xyz | प्राथमिक शिक्षण प्रमाणक: 4567877747

प्राथमिक शिक्षण का पता: xyz | समिति प्राथमिक शिक्षण की तारीख: 01/12/2023 | शिक्षण का नाम: xyz

संचालक मोबाइल नं: 8319129439

गैर दाल वाले जानकारी स्व-सत्यापित कर ली गई है।

Update School Information

➤ विलक करने के उपरांत school proposed fees दर्ज करने हेतु Next बटन पर विलक करें |

1 शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय से संपर्क करें |
 Welcome : PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680) - UDISECode - (23320113107)

स्कूल की सामान्य जानकारी

वैश्विक सत्र: 2023-24 | बोर्ड का प्रकार: CBSE | प्राचार्य का नाम: xyz

स्कूल का नाम: PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680) | प्राचार्य का ई-मेल: xyz@gmail.com | प्राचार्य का मोबाइल नंबर: 8319129439

स्कूल का पता

स्कूल का पता: xyz | संभाग: Bhopal | जिला: Bhopal

विकासखंड / ब्लॉक: BERASIA | गाँव का नाम: KALARA | संकुल केंद्र: BERASIA (BOYS) GOVT.HSS

स्कूल आधिकारिक ई-मेल आईडी: anandmishra140@gmail.com

स्कूल के वर्गीकरण की जानकारी

स्कूल प्रबंधन: Other Government Managed School | स्कूल की वेबसाइट: NA | स्कूल का प्रकार चुनें: Boys | स्कूल विषय: Morning, Afternoon

शहरी/ग्रामीण क्षेत्र: Urban | स्कूल का सैकसाइन: 07554059034 | शिक्षण का माध्यम: English,Hindi | स्कूल का वर्गीकरण: Upper Primary only with grades 6 to 1

विषय का विवरण: Vocational

➤ Next बटन पर विलक करने के उपरांत शैक्षणिक सत्र, श्रेणी, उप श्रेणी एवं कक्षा का चयन कर कक्षावार फीस का विवरण दर्ज करें |

3 शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय से संपर्क करें |

Welcome : PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680) - UDISECode - (23320113107)

प्रस्तावित स्कूल फीस

वैश्विक सत्र: 2023-24 | बोर्ड: CBSE | उप श्रेणी: Upper Primary only with grades 6 to 8 | कक्षा: 6TH

विवरण

क्र.सं.	फीस का विवरण	वर्तमान फीस	नया फीस	वर्तमान फीस में परिवर्तन
1	विद्यार्थी फीस / Tuition	100.00	110.00	10.00
2	पुस्तकालय फीस / Library fees	0.00	0.00	0.00
3	बायोलाजी फीस / Biology fees	0.00	0.00	0.00
4	खेल फीस / Sports fees	0.00	0.00	0.00
5	प्रयोगशाला फीस / Lab fees	0.00	0.00	0.00
6	कंप्यूटर फीस / Computer fees	0.00	0.00	0.00
7	सावधानी फीस / Caution money	0.00	0.00	0.00
8	परीक्षा फीस / Exam fees	0.00	0.00	0.00
9	अन्य कोई भी अनिवार्य फीस जो विद्यार्थी के लिए होनी चाहिए / Fees for exams organized on occasions	0.00	0.00	0.00
10	प्रवेश फीस / Admission fees	0.00	0.00	0.00
11	वर्गीकरण/प्रवेशन फीस, प्रवेशन प्रमाणिका के लिए फीस / Fees for Registration, Provisional, Admission Application	0.00	0.00	0.00
12	अन्य कोई भी अनिवार्य फीस जो विद्यार्थी के लिए होनी चाहिए / Any other amount payable by the student on regular	0.00	0.00	0.00
13	उपरोक्त फीस में कोई भी अन्य फीस जो विद्यार्थी के लिए होनी चाहिए / Any other amount payable by the student on regular	0.00	0.00	0.00
14	परिवहन फीस (1.4, 1.5) 0 से 2 Km / Transportation fees(1.4, 1.5) 0 to 2 Km	0.00	0.00	0.00
15	परिवहन फीस (1.4, 2) 2 से 4 Km / Transportation fees(1.4, 2) 2 to 4 Km	0.00	0.00	0.00
16	परिवहन फीस (1.4, 3) 4 से 6 Km / Transportation fees(1.4, 3) 4 to 6 Km	0.00	0.00	0.00
कुल फीस		100.00	110.00	10.00

विवरण में कोई भी फीस नहीं दर्ज है / No fees are entered in the details

विवरण में कोई भी फीस नहीं दर्ज है / No fees are entered in the details

Save

- कक्षवार राशि भरने के पश्चात् सत्यापन हेतु “मेरे द्वारा सभी जानकारी सत्यापित कर ली गई है” चेक बॉक्स टिक कर NEXT बटन पर क्लिक कर आप अगले पेज पर पहुँच जाते हैं।

The screenshot shows the 'Submitted' step of the school fees submission process. The user is logged in as PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680). The page displays a progress bar with four steps: School general information, Proposed School Fees, Upload Document, and Submitted. Below the progress bar, there is a search filter for 'प्रस्तावित स्कूल फीस' (Proposed School Fees) with dropdowns for 'वैश्विक सत्र' (2023-24), 'श्रेणी' (Select), 'उप श्रेणी' (No record found), and 'कक्षा' (No record found). A table titled 'विवरण' (Details) lists the submitted fees:

सं. क्र.	स्थिति	श्रेणी	उप श्रेणी	कक्षा	वार्षिक फीस विगत सत्र	वार्षिक फीस वर्तमान सत्र	वार्षिक फीस में वृद्धि /कमी प्रतिशत में	टिप्पणी
1	Submitted	Elementary	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	6TH	100.00	110.00	10.00	Test
2	Submitted	Elementary	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	7TH	100.00	112.00	12.00	Test
3	Submitted	Elementary	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	8TH	100.00	117.00	17.00	Test
कुल योग						339.00	13.00	

At the bottom, there is a checkbox 'मेरे द्वारा सभी जानकारी सत्यापित कर ली गई है।' (I have verified all information by me) which is checked. A yellow arrow points to the 'Next' button.

- NEXT बटन पर क्लिक करने के उपरांत स्कूल fees सम्बन्धी दस्तावेज अपलोड का पेज प्रदर्शित होता है , जिसके माध्यम स्कूल फीस से सम्बंधित दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं।
- क्रमवार दस्तावेज ऐड करने के उपरांत Upload Document बटन पर क्लिक करें , जिससे सभी दस्तावेज अपलोड हो जायेंगे।

The screenshot shows the 'Upload Document' step of the school fees submission process. The user is logged in as PVT MS (1-8) PRAJWALIT VIDYA MANDIR, PALASI ROAD KAROND (27370). The page displays a progress bar with four steps: School general information, Proposed School Fees, Upload Document, and Submitted. Below the progress bar, there is a form titled 'प्रस्तावित स्कूल फीस दस्तावेज अपलोड' (Proposed School Fees Document Upload). The form includes dropdowns for 'वैश्विक सत्र' (2023-24), 'वैश्विक सत्र' (Select), and 'दस्तावेज का प्रकार' (Select). There is a file upload field with a 'Choose file' button and a 'No file chosen' message. Below the form, there is a table titled 'विवरण' (Details) listing the uploaded documents:

क्र.सं.	वैश्विक सत्र	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज	टिप्पणी	हटायें
1	2023	प्राथमिक एवं भूगोल पत्रक		na	
2	2023	अभिलेख प्रविष्टि		NA	

A yellow arrow points to the 'Upload Document' button at the bottom.

- दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात् प्रस्तावित स्कूल फीस भुगतान आवेदन पेज द्वारा कक्षावार सारी जानकारी पुनः जाँच कर चेक बॉक्स विलक करने उपरांत Proceed to Payment बटन पर क्लिक कर प्रस्तावित फीस शुल्क भुगतान करें।

DPI Portal | Welcome : PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680)

Dashboard | School Fees | Report

Progress: School general information (1) | Proposed School Fees (2) | Upload Document (3) | Submitted (4)

«Back

प्रस्तावित स्कूल फीस भुगतान आवेदन

वैश्विक संत्र *
2023-24

विवरण

संरल क्र.	स्थिति	श्रेणी	उप श्रेणी	कक्षा	वार्षिक फीस विगत सत्र	वार्षिक फीस वर्तमान सत्र	वार्षिक फीस में वृद्धि /कमी प्रतिशत में	टिप्पणी	विवरण देखें	दस्तावेज रें
1	Submitted	Elementry	Upper Primary only with grades 6 to 8	6TH	100.00	110.00	10.00	Test		
2	Submitted	Elementry	Upper Primary only with grades 6 to 8	7TH	100.00	112.00	12.00	Test		
3	Submitted	Elementry	Upper Primary only with grades 6 to 8	8TH	100.00	117.00	17.00	Test		
कुल योग					300.00	339.00	13.00			

प्राचार्य का नाम * xyz | प्राचार्य का ई-मेल * xyz@gmail.com | प्राचार्य का मोबाइल नंबर * 8319129439

विद्यार्थी की संख्या * 450 | विद्यार्थी की संख्या के मान से भुगतान की जाने वाली राशी 500.00

[Proceed To Payment](#)

विद्यालय (फीस तथा सम्बंधित विषयों का विनिश्चयन) अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अनुक्रम में फीस में वृद्धि के फलस्वरूप, जिस वर्ष के लिए फीस वृद्धि प्रस्तावित है, उस वर्ष के प्रस्तावित व्यय के आधार पर वार्षिक प्राप्ति पर अधिभोग 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

HDFC BANK | SmartHub

Time left to complete transaction 14:40 mins

Billing Information

Amount: INR 11.00

Order No: #23320113107SF071 22023021141

Merchant: COMMISSIONER PUBLIC INSTRUCTION M P

Website: https://dpimp.in

PAY WITH

- HDFC BANK CREDIT CARD
- HDFC BANK DEBIT CARD
- OTHER BANK CREDIT CARD
- OTHER BANK DEBIT CARD
- UNIFIED PAYMENT INTERFACE (UPI)
- NET BANKING
- BHARAT QR

➤ Reports :-

1. Proposed School Fees Report : - इस रिपोर्ट में शैक्षणिक सत्र का चयन कर school द्वारा प्रस्तावित की गयी Fees की जानकारी देख सकते हैं |

प्रस्तावित स्कूल फीस रिपोर्ट

शैक्षणिक सत्र *
2023-24

Search Clear

विवरण

Print Excel

Show 10 entries

Showing 1 to 4 of 4 entries

सं. क्र.	स्थिति	आवेदन क्र.	श्रेणी	उप श्रेणी	कक्षा	वार्षिक फीस विगत सत्र	वार्षिक फीस वर्तमान सत्र	वार्षिक फीस में वृद्धि/कमी प्रतिशत में
1	Pending		Elementary	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	6TH	0.00	0.00	0.00
2	Pending		Elementary	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	7TH	0.00	0.00	0.00
3	Pending		Elementary	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	8TH	0.00	0.00	0.00
कुल योग						0.00	0.00	0.00

दस्तावेज देखें View

2. Complaint Status :- इस रिपोर्ट के द्वारा हम शैक्षणिक सत्र का चयन एवं स्थिति का चयन कर school के विरुद्ध की गई शिकायतों की स्थिति देख सकते हैं |

स्कूल फीस शिकायत स्वीकृत/अस्वीकृत

शैक्षणिक वर्ष *
2023-24

स्थिति
All

Search Clear

शिकायत स्थिति

Print Excel

Show 10 entries

Showing 1 to 1 of 1 entries

सं. क्र.	Action	स्थिति	रिमार्क	शिकायत दिनांक	शिकायत क्रमांक	शिकायत श्रेणी	शिकायतकर्ता का न
1		Pending At DEO	Complaint Send to DEO	07/12/2023	CP2312070000002	फीस संबंधी समस्या हेतु	xyz

3. School Payment Slip :- इस रिपोर्ट के द्वारा हम शैक्षणिक सत्र एवं शुल्क के प्रकार का चयन कर school fees की Payment Slip (पावती) देख सकते हैं |

The screenshot shows the DPI Portal interface. The left sidebar contains a menu with 'Proposed Fees Payment Slip' highlighted. The main content area displays a search form for 'स्कूल पेमेंट स्लिप' (School Payment Slip) with the following fields:

- शैक्षणिक सत्र * (Academic Year): 2023-24
- शुल्क का प्रकार * (Fee Type): Proposal
- Buttons: Search, Clear


The screenshot shows the 'Payment Receipt - Fees Proposal (2023-24)' document. The document includes the following information:

Department of Public Instructions
Payment Receipt - Fees Proposal (2023-24)
Order No.:#233201131075F07122023030657 Date:07/12/2023


School Name	PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOOL KALARA(84680)	Billing Amount	1.00
UDISE Code	23320113107	Bank Ref.	84789384761
Board Name	CBSE	Billing Status	Success
Category Name	Upper Primary only with grades 6 to 8	Transaction Id	113101717084
Principle Name	xyz	Billing Date	07/12/2023

Buttons: Print, Back

4. Complaint Payment Slip: - इस रिपोर्ट के द्वारा हम शैक्षणिक सत्र एवं Payment Slip के प्रकार का चयन एवं शिकायत क्रमांक दर्ज कर Complaint Payment Slip (पावती) देख सकते हैं |



5. Payment Passbook: - इस रिपोर्ट के द्वारा हम शैक्षणिक सत्र एवं शुल्क के प्रकार का चयन कर School द्वारा किये गये सभी भुगतानों की जानकारी एवं Payment Slip (पावती) देख सकते हैं |



- स्कूल के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा किये गए शिकायत के लिए गए निर्णय अनुसार, निर्णय के विरुद्ध अपील अथवा पेनल्टी भुगतान करने हेतु Report सेक्शन के Complaint Status आप्शन पर क्लिक कर शैक्षणिक वर्ष एवं स्थिति का चयन कर विवरण देखें तथा अपील करने हेतु अपील आप्शन का चयन करें अथवा पेनल्टी भुगतान करने हेतु Pay Penalty आप्शन का चयन करें |

स्कूल फीस शिकायत स्वीकृत/अस्वीकृत

शैक्षणिक वर्ष: 2023-24, स्थिति: All

शिकायत स्थिति

Print, Excel, Search, Clear

Show: 10 entries

Showing 1 to 1 of 1 entries

सं. क्र.	Action	स्थिति	टिप्पणी	शिकायत दिनांक	शिकायत क्रमांक	शिकायत श्रेणी	शिकायतकर्ता का नाम
1	Appeal, Pay Penalty	Penalty by DEO		07/12/2023	CP2312070000002	फीस संबंधी समस्या हेतु	xyz

- शिकायत विरुद्ध अपील करने हेतु अपील आप्शन का चयन करें तथा सभी फ़िल्ड की जाँच कर एवं दस्तावेज़ का चयन कर अपील फीस का भुगतान करने हेतु Proceed to Payment Option पर क्लिक करें |

Appeal

नोट: जिला समिति के द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत को मान्य किया गया है! समिति आदेश के विरुद्ध अपील हेतु अपील राशी का भुगतान करें

अपील

दिनांक: 07/12/2023, शिकायत क्र.: CP2312070000002, अपील राशि: 2500


स्कूल का नाम: PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHOC

अपील दस्तावेज़ अपलोड करें (in PDF): Choose File N...en


टिप्पणी:

Proceed To Payment, Cancel

- शिकायत विरुद्ध Penalty राशि का भुगतान करने हेतु Pay Penalty ऑप्शन का चयन करें तथा Proceed to Payment Option पर क्लिक कर भुगतान करें |



- स्कूल द्वारा प्रस्तावित फीस के विरुद्ध जिला अथवा राज्य स्तर से लिए गए निर्णय के विरुद्ध Penalty राशि अथवा अपील करने हेतु Proposed School Fees Report ऑप्शन का चयन करें तथा शैक्षणिक सत्र का चयन कर प्रस्तावित फीस के विरुद्ध जिला अथवा राज्य स्तर से लिए गए निर्णय की जानकारी देखें |



- स्कूल द्वारा प्रस्तावित फीस के विरुद्ध Penalty राशि का भुगतान करने हेतु (जुर्माना जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें) तथा penalty राशि का भुगतान करें |

विवरण

नोट : DPI के द्वारा 1.00/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना भरने की अंतिम दिनांक(09/12/2023) जुर्माना जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें!

Print Excel Search:

Show 10 entries

Showing 1 to 4 of 4 entries Prev 1 Next

सरल क्र.	स्थिति	आवेदन क्र.	श्रेणी	उप श्रेणी	कक्षा	वार्षिक फीस विगत सत्र	वार्षिक फीस वर्तमान सत्र	वार्षिक फीस में वृद्धि /कमी
1	Penalty	2023/00000025	Elementry	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	8TH	100.00	117.00	
2	Rejected	2023/00000025	Elementry	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	6TH	100.00	110.00	
3	Rejected	2023/00000025	Elementry	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	7TH	100.00	112.00	
	कुल योग					300.00	339.00	

दस्तावेज देखें View

- Penalty राशि का भुगतान करने हेतु Proceed to Payment ऑप्शन पर क्लिक कर भुगतान करें |

जुर्माना

वैश्विक सत्र: 2023-24 आवेदन क्र.: 2023/00000025

स्कूल का नाम: PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHC श्रेणी: Elementry उप श्रेणी: Upper Primary only with grades 6 to 8

सरल क्र.	कक्षा	वार्षिक फीस वर्तमान सत्र	वार्षिक फीस विगत सत्र	वार्षिक फीस में वृद्धि /कमी प्रतिशत में
1	6TH	110.00	100.00	10.00
2	7TH	112.00	100.00	12.00
3	8TH	117.00	100.00	17.00
	कुल योग	339.00	300.00	13.00

दिनांक: 07/12/2023 जुर्माना राशि: 1.00

Proceed To Payment

- स्कूल द्वारा प्रस्तावित फीस के Rejection के विरुद्ध Appeal करने के लिए Report Section के Proposed School Fees Report द्वारा शैक्षणिक सत्र का चयन कर (अपील करने के लिए यहाँ क्लिक करें) ऑप्शन पर क्लिक करें |

प्रस्तावित स्कूल फीस रिपोर्ट

शैक्षणिक सत्र *
2023-24

विवरण

नोट : अपील करने के लिए शेष दिन :- 10 [अपील करने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

Show 10 entries

Showing 1 to 4 of 4 entries

सं. क्र.	स्थिति	आवेदन क्र.	श्रेणी	उप श्रेणी	कक्षा	वार्षिक फीस विगत सत्र	वार्षिक फीस वर्तमान सत्र	वार्षिक फीस में वृद्धि/कमी
1	Forward	2023/00000025	Elementary	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	8TH	100.00	117.00	
2	Rejected	2023/00000025	Elementary	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	6TH	100.00	110.00	
3	Rejected	2023/00000025	Elementary	Upper Primary Only With Grades 6 To 8	7TH	100.00	112.00	
कुल योग						300.00	339.00	

- अपील करने के लिए यहाँ क्लिक करें ऑप्शन पर क्लिक कर अपील सम्बंधित दस्तावेज़ अपलोड कर तथा टिप्पणी दर्ज कर Appeal दर्ज करें |

अपील

शैक्षणिक सत्र: 2023-24
आवेदन क्र.: 2023/00000025

स्कूल का नाम: PVT MS (1-8) SHRI RAM KRISHNA PUBLIC SCHC
श्रेणी: Elementary
उप श्रेणी: Upper Primary only with grades 6 to 8

सं. क्र.	कक्षा	वार्षिक फीस वर्तमान सत्र	वार्षिक फीस विगत सत्र	वार्षिक फीस में वृद्धि/कमी प्रतिशत में
1	6TH	110.00	100.00	10.00
2	7TH	112.00	100.00	12.00
3	8TH	117.00	100.00	17.00
कुल योग		339.00	300.00	13.00

अपील दस्तावेज़ अपलोड करें (in PDF)*
 No file chosen

अपील राशि *
2500.00

टिप्पणी *



Directorate of Public Instruction

(Government of Madhya Pradesh)

Thank You